



## राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाज़ीपुर

### सर्जना- 2023

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाज़ीपुर का 45 वां वार्षिकोत्सव मेधा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह, सर्जना- 2023 आज धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जनपद गाज़ीपुर की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉ नीरज माधव रही। जिलाधिकारी गाज़ीपुर आर्यका अखौरी ने महाविद्यालय की ओर से मिले प्यार और सम्मान के लिए समस्त महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। आपने महाविद्यालय की छात्राओं को स्नातक एवं परास्नातक शिक्षा के पश्चात नए जमाने के कौशल सीखने पर जोर दिया जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। आपने महाविद्यालय परिवार को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता एवं समर्थन देने के लिए सदैव तत्पर हैं। छात्राएं नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति के साथ-साथ से शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी अपनी सतत भागीदारी दर्ज कराएं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार नीरजा माधव ने उपस्थित छात्राओं एवं नारी शक्ति को विशिष्ट बताया। आपके अनुसार हमारे यहां स्त्री अनादि काल से शक्ति स्वरूपा हैं। हमारी सनातन संस्कृति स्त्री का सम्मान करती है और हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। आपके अनुसार स्त्री विमर्श पाश्चात्य नारा है। यह स्त्री, समाज एवं परिवार को बांटने की साजिश है। नारी को श्रद्धा एवं निष्ठा से कार्य करना है और महिलाओं को महिलाओं का संबल बनना है। प्राचार्य डॉ सविता भारद्वाज ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए कहां की महिला दिवस पर सशक्त एवं विद्वत महिलाओं की उपस्थिति महाविद्यालय के लिए हर्ष का विषय है। अपने व्यस्ततम एवं पारिवारिक दायित्वों से समय निकालकर महाविद्यालय को समय देना हम सबके लिए स्तुत्य हैं। कार्यक्रम का संचालन समारोहक डॉ विकास सिंह ने तथा आभार ज्ञापन डॉ निरंजन कुमार यादव ने किया।


इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत प्रज्ञा रेंजर कलर पार्टी द्वारा हर्ष ध्वनि एवं पुष्प वर्षा के द्वारा किया गया। एनसीसी छात्राओं ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉ सविता भारद्वाज ने अतिथियों का बैज, पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। संगीत की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं महाविद्यालय का कुलगीत, तथा अतिथियों के स्वागत में गीत प्रस्तुत किया। प्राचार्य महोदय ने मंच से अतिथियों की उपस्थिति को महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए प्रेरणादाई बताया। मुख्य अतिथि द्वय के अभिनंदन पत्र का वाचन डॉ संगीता एवं डॉ निरंजन द्वारा किया गया। महाविद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या मीडिया प्रभारी डॉ शिवकुमार ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की शोध निबंध पुस्तिका 'सुकृति' तथा डॉ निरंजन कुमार यादव की आलोचनात्मक कृति 'कबीर की विरासत' का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में देर सायं तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ बीडी मिश्रा, हिमांशु उपाध्याय, डॉ सुशील कुमार तिवारी, जनपद स्काउट गाइड के दिनेश कुमार यादव, उबैद उर रहमान, विकास कुमार राय, डॉ प्रियंका यादव, डॉ

कौशल श्रीवास्तव आदि गणमान्य नागरिक एवं अभिभावक गण, छात्राएं, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।









 **GPS Map Camera**

**Ghazipur, Uttar Pradesh, India**

**HHHH+V2F, Mishra Bazar, Aamghat,**

**Ghazipur, Uttar Pradesh 233001, India**

**Lat 25.580048°**

**Long 83.57786°**

**12/03/23 11:58 AM GMT +05:30**



**Google**